

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
(POLICY BRANCH)
VYAPAR BHAWAN: I.P.ESTATE: NEW DELHI-02

No. F.5(23)/Policy/GST/VS/2019/ 902

Dated: 27/12/2021

To,

✓ The Deputy Secretary (Question Branch),
Delhi Legislative Secretariat,
Old Secretariat,
Delhi-110054.

**Sub: Reply of Vidhan Sabha Unstarred Question 191, raised by Hon'ble MLA
Sh. S.K Bagga due for reply on 04/01/2022.**

Sir,

With reference to your e-mail questionbranchlas@gmail.com , kindly find enclosed 100 copies of the duly authenticated reply to the Unstarred Question No. 191, in Hindi, raised by Hon'ble member Sh. S.K Bagga, due for reply in Vidhan Sabha on 04/01/2022. This issues with the approval of Commissioner (State Tax), Delhi.

The reply has been sent in email at questionbranchlas@gmail.com and the soft copy is also being submitted in pen drive. Kindly acknowledge the receipt.

Encl: As above.

Yours faithfully,



ASSTT.COMMISSIONER (POLICY)

Copy to:

1. The Director, Information & Publicity, GNCTD, Old Sectt, Block 9, Delhi-54 along with 150 copies of the reply.
2. The Dy. Secretary-VI (Finance), Finance (Revenue-I) Department, 4th Level, A-wing, Delhi Sectt., New Delhi for information please.



ASSTT.COMMISSIONER (POLICY)


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग,
(नीति शाखा)
व्यापार भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 191
दिनांक :- 04/01/2022
प्रश्नकर्ता :- श्री एस. के. बग्गा

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-


क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर			
क)	वैट पीरियड वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 (प्रथम तिमाही) कितनी असेसमेंट एक्स-पार्टी की गयी है व कितना टैक्स वसूल किया गया है;	i) मांगे गये वैट पीरियड में किये गये कुल असेसमेंट एवं टैक्स का विवरण निम्नलिखित है:-			
		वर्ष	कुल असेसमेंट	टैक्स (करोड़ में)	
		2015-16	398146	20,514.44	
		2016-17	455676	21,989.87	
		2017-18	46315	5,540.45	
ख)	वैट पीरियड वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18(प्रथम तिमाही) कितनी अपील पेंडिंग हैं, कितना टैक्स/इंटररेस्ट इन्वाल्ड है;	ii) एक्सपार्टी असेसमेंट एवं उसके द्वारा वसूल किया गये टैक्स से संबंधित सूचना डी-वैट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।			
		वर्ष	पेंडिंग अपील	टैक्स/इंटररेस्ट (करोड़ में)	
		2015-16	966	543.84	
		2016-17	684	375.89	
		2017-18	230	65.22	
ग)	वैट पीरियड के अन्तर्गत कितने व्यापारियों ने डीवैट-41 फाईल किए हैं, पार्टीवाइज, इयरवाइज, जोनवाइज विवरण प्रदान करें;	ओएचए स्तर पर मौजूदा उपलब्ध जानकारी का विवरण निम्नलिखित है:-			
		जोन	पार्टी का नाम	वर्ष	डीवैट-41 की संख्या
		I	नाथ इंजिनियर्स ट्रेडर्स	2013-14	01
			राम चन्द एण्ड संस	2013-14	01
			गुप्ता इलेक्ट्रिक एण्ड मशीनरी स्टोर	2013-14	01
			मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	2015-16	01
		II	पोलाईट इलेक्ट्रिकल इंडिया प्रा०लि०	2017-18	01
		III	सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स	2008-09	02
			ओमेक्स इंटरनेशनल	2013-14	03
			एरिस्टो व्हीलर्स	2017-18	02
		IV	---	---	00
		V	---	---	00
		VI	---	---	00
		VII	---	---	00
		VIII	---	---	00
IX	---	---	00		
X	---	---	00		
XI	---	---	00		
XII	---	---	00		

5/1/22



		AE-I	चैम्पियन इंजिनियरिंग वर्क्स	2014-15	02
घ)	अंडर जीएसटी एक्ट कितने व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल किए गए हैं, किस कारण कैंसिल किए गए है, जोनवाइज विवरण दें; और	जोन	कैंसिल रजिस्ट्रेशन की संख्या	कारण	
		I	11151	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 61 व्यवसाय बंद के कारण - 8686 अन्य कारण-1416 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 606 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-320 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-62	
		II	9891	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 125 व्यवसाय बंद के कारण - 7500 अन्य कारण-1276 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 612 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-290 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-87	
		III	19150	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 150 व्यवसाय बंद के कारण - 15172 अन्य कारण-2110 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 1153 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-468 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-97	
		IV	19314	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 102 व्यवसाय बंद के कारण - 15450 अन्य कारण-2187 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 1134 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-345 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-96	
		V	23769	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 63 व्यवसाय बंद के कारण - 19574 अन्य कारण-2839 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 966 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-276 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-51	
		VI	26744	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण,	

अज्ञात



		<p>पैन नंबर में बदलाव -71 व्यवसाय बंद के कारण - 22666 अन्य कारण-2671 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 966 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-302 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-68</p>
VII	33678	<p>व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 94 व्यवसाय बंद के कारण - 27453 अन्य कारण-3931 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-1606 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-486 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-108</p>
VIII	20508	<p>व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 81 व्यवसाय बंद के कारण - 15869 अन्य कारण-2757 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 1432 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-220 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-149</p>
IX	14911	<p>व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 88 व्यवसाय बंद के कारण - 10867 अन्य कारण-2204 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण- 1426 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-247 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-79</p>
X	559	<p>व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 01 व्यवसाय बंद के कारण - 461 अन्य कारण-80 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण - 17</p>
XI	813	<p>व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 01 व्यवसाय बंद के कारण - 639 अन्य कारण-113 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण - 30 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-08 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-22</p>
XII	1757	<p>व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव - 08</p>

रुनवा



				व्यवसाय बंद के कारण - 1431 अन्य कारण-237 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण - 59 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-16 विलय, डीमर्जर, विक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-06
ड.)	इंफोर्समेंट-1 एवं 2 के अंतर्गत वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कितना टैक्स/पेनल्टी वसूल की गयी है, जोनवाइज विवरण दें?	वर्ष	इंफोर्समेंट-1	इंफोर्समेंट-2
			टैक्स/पेनल्टी (करोड़ में)	टैक्स/पेनल्टी (करोड़ में)
		2020-21	20.58	16.37
		2021-22	21.77	5.14
इंफोर्समेंट-1 एवं 2 की कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाती है।				

सुनीता

